

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 335]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 सितम्बर 2018 — भाद्रपद 20, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर दिनांक 4 सितम्बर 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-46/2018/वाक/पांच (75).— यतः, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) या छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अंतर्गत कर भुगतान करने हेतु दायी व्यवसायियों की ऐसी सभी कर निर्धारण कार्यवाहियां, जिन्हें छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उप-धारा (7) के प्रावधानों के अंतर्गत कलैण्डर वर्ष 2017 के अंत तक पूर्ण किया जाना है, और जिन्हें कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किये जा रहे सभी संभव प्रयासों के उपरांत भी विहित कालावधि के भीतर पूर्ण नहीं की जा सकता है और कर निर्धारण अधिकारियों को ऐसी कार्यवाहियों को गुणदोष के आधार पर पूर्ण करने के लिये सक्षम बनाने हेतु, यह आवश्यक है कि ऐसी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिये विहित समय-सीमा बढ़ायी जाए;

अतएव, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, प्रत्येक व्यवसायी के संबंध में जिनका सकल आवर्त वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु 1 करोड़ से अधिक न हो, उक्त अधिनियमों के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक कर निर्धारण कार्यवाही, जो 30 सितम्बर 2018 तक पूर्ण नहीं की जाती है, को पूर्ण करने हेतु अवधि को 30 जून, 2019 तक बढ़ाती है तथा प्रत्येक व्यवसायी के संबंध में जिनका सकल आवर्त वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु 1 करोड़ से अधिक हो, उक्त अधिनियमों के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक कर निर्धारण कार्यवाही, जो 30 सितम्बर, 2018 तक पूर्ण नहीं की जाती है, को पूर्ण करने की अवधि 31 दिसम्बर, 2018 तक बढ़ाती है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

अटल नगर दिनांक 4 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ-10-46/2018/वाक/पांच (75).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-46/2018/वाक/पांच (75), दिनांक 04-09-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

Atal Nagar the 4th September 2018

NOTIFICATION

No. F-10-46 /2018/CT/V (75).- Whereas, the State Government is satisfied that all such assessment proceeding of dealers liable to pay tax under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) or the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), which have to be completed by the end of the calendar year 2017 under the provisions of sub-section (7) of section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) and which cannot be completed within the prescribed period despite all possible efforts being made by the assessing authorities, and in order to enable the assessing authorities to complete such proceedings on merits, it is essential that the time limit prescribed for the completion of such proceedings is extended;

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, extends up to 30th June, 2019 the period for completion of every such assessment proceeding under the said Acts in respect of every such dealer whose turnover in the year does not exceed Rs. 1 Crore, and not completed by 30th September, 2018 and State Government, hereby, extends up to 31st December, 2018 the period for completion of every such assessment proceeding under the said Acts in respect of every such dealer whose turnover in the year exceeds Rs. 1 Crore, and not completed by 30th September, 2018.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Special Secretary.

अटल नगर दिनांक 4 सितम्बर 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-46/2018/वाक/पांच (76).- यतः, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) या छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अंतर्गत कर भुगतान करने हेतु दायी व्यवसायियों की ऐसी सभी कर निर्धारण कार्यवाहियाँ, जिन्हें छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उप-धारा (7) के प्रावधानों के अंतर्गत कलैण्डर वर्ष 2018 के अंत तक पूर्ण किया जाना है, और जिन्हें कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किये जा रहे सभी संभव प्रयासों के उपरांत भी विहित कालावधि के भीतर पूर्ण नहीं की जा सकता है और कर निर्धारण अधिकारियों को ऐसी कार्यवाहियों को गुणदोष के आधार पर पूर्ण करने के लिये सक्षम बनाने हेतु, यह आवश्यक है कि ऐसी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिये विहित समय-सीमा बढ़ायी जाए;

अतएव, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, प्रत्येक व्यवसायी के संबंध में जिनका सकल आवर्त वित्तीय

वर्ष 2015-16 में रु 1 करोड़ से अधिक न हो, उक्त अधिनियमों के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक कर निर्धारण कार्यवाही, जो 31 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण नहीं की जाती है, को पूर्ण करने हेतु अवधि को 31 दिसम्बर, 2019 तक बढ़ाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

अटल नगर दिनांक 4 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ-10-46/2018/वाक/पांच (76).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-46/2018/वाक/पांच (76), दिनांक 04-09-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

Atal Nagar Raipur, the 4 September 2018

NOTIFICATION

No. F-10- 46 /2018/CT/V (76).- Whereas, the State Government is satisfied that all such assessment proceeding of dealers liable to pay tax under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) or the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), which have to be completed by the end of the calendar year 2018 under the provisions of sub-section (7) of section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) and which cannot be completed within the prescribed period despite all possible efforts being made by the assessing authorities, and in order to enable the assessing authorities to complete such proceedings on merits, it is essential that the time limit prescribed for the completion of such proceedings is extended;

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, extends up to 31st December, 2019 the period for completion of every such assessment proceeding under the said Acts in respect of every such dealer whose turnover in the year does not exceed Rs. 1 Crore, and not completed by 31st December, 2018.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Special Secretary.

अटल नगर दिनांक 4 सितम्बर 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-46/2018/वाक/पांच (77).-छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उप-धारा (1) के खंड (द्वो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट व्यापारियों के वर्ग को, कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट वर्ष के लिये, कॉलम (4) में यथा

विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम के प्रावधानों एवं छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 से, उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

अ. क्र.	व्यापारियों का वर्ग	वर्ष	प्रावधान/नियम जिनसे छूट दी गई	निर्बन्धन तथा शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ऐसे पंजीकृत व्यापारी, जो निर्माता या/और आयात नहीं है, और जिनके द्वारा अंतर्राज्यीय विक्रय/ भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय नहीं किया जाता है तथा जिनकी सकल वार्षिक कुल विक्रय राशि राशि रु. 1 करोड़ से कम है।	वित्तीय वर्ष 2014-15	धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (ग), धारा 21 की उप-धारा (2) के खंड (एक), (दो) एवं (तीन) और धारा 41 की उप-धारा (2) तथा नियम 20(2)(क)	जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी देय कर राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, के भुगतान पश्चात्, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार विहित प्रारूप-18 में ऑनलाईन विवरण वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु दिनांक 31.12.2018 तक प्रस्तुत कर देता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

अटल नगर दिनांक 4 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ-10-46/2018/वाक/पांच (77).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-46/2018/वाक/पांच(77), दिनांक 04-09-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

Atal Nagar the 4th September 2018

NOTIFICATION

No. F-10-46 /2018/CT/V (77). – In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, exempts the class of dealers as specified in column (2) of the Schedule below, for the year as specified in column (3), from provisions of the said Act and Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006 as specified in column (4), subject to the restrictions and conditions specified in column (5) of the said Schedule, namely :-

SCHEDULE

S. No.	Class of dealers	Year	Section/Rule from which exemption granted	Restrictions and conditions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Registered dealer, whose annual turnover is less than Rs. 1 crore, who is not a manufacturer and/or importer and does not effect interstate sale/sale in the course of export out of the territory of India.	Financial year 2014-15	Clauses (c) of sub-section (1) of section 19, clause (i), (ii) and (iii) of sub-section (2) of Section 21 and rule 20(2)(a)	When the dealer specified in column (2) after payment of due tax amount with interest, if any, files a statement online in Form-18 prescribed as per the provisions of clause (b) of sub-section (1) of Section 19 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for financial year 2014-15 up to 31-12-2018.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Special Secretary.

अटल नगर दिनांक 4 सितम्बर 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-46/2018/वाक/पांच (78).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उप-धारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट नियमों से, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, ऐसे व्यवसायियों के लिए जिनका वर्ष 2014-15 में सकल आवर्त रु. 1 करोड़ से कम है, वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए दिनांक 31.12.2018 तक छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

अ.क्र.	नियम जिनसे छूट दी गई	निर्बन्धन तथा शर्तें
(1)	(2)	(3)
1.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 20 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन विहित प्ररूप-18 का भाग-ग	जबकि भाग-ग की जानकारी:- (क) अधिनियम की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट माल या अधिसूचना द्वारा करमुक्त माल, या (ख) अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-3 के अनुक्रमांक 1 एवं 2 में विनिर्दिष्ट माल, या (ग) अधिकतम खुदरा मूल्य पर दवाई, के छत्तीसगढ़ राज्य में क्रय या विक्रय से संबंधित हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

अटल नगर दिनांक 4 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ-10-46/2018/वाक/पांच (78).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-46/2018/वाक/पांच (78), दिनांक 04-09-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

Atal Nagar the 4th September 2018

NOTIFICATION

No. F-10-46/2018/CT/V (78).— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, exempts from

the rules as specified in column (2) of the Schedule below, subject to the restrictions and conditions specified in column (3) of the said Schedule, for such dealers whose turnover does not exceed Rs. 1 crore for the financial year 2014-15 up to 31.12.2018 namely :-

SCHEDULE

S.No.	Rule from which exemption is granted	Restrictions and conditions.
(1)	(2)	(3)
1.	Part-C of Form-18 prescribed under clause (b) of sub-rule (2) of rule 20 of the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006.	<p>When the information of part-C is related with purchase or sale within Chhattisgarh State, of :-</p> <p>(a) Goods specified in Schedule-I of the Act or goods exempted by notification, or</p> <p>(b) Goods specified in S.No. 1 & 2 of part-III of Schedule-II of Act, or</p> <p>(c) Medicine at maximum retail price.</p>

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Special Secretary.